

वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट ने मनाया हिन्दी सप्ताह समारोह 2019

प्रत्येक वर्ष के तरह इस वर्ष भी दिनांक 14 से 20 सितम्बर 2019 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए संस्थान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। हिन्दी दिवस का शुभारंभ प्रातः 10 बजे उदघाटन समारोह के साथ किया गया जिसमें संस्थान के निदेशक, डॉ. अर.एस.सी. जयराज, भा.व.से., डॉ. अर.के. बोरा, समूह समन्वयक (अनु.) तथा प्रभागों के प्रामुख, सभी वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और शोधार्थी उपस्थित थे। हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए डॉ. मनीष कुमार सिंह, वैज्ञानिक-डी एवं हिन्दी अधिकारी ने सभी सभासदों का स्वागत किया और हिन्दी दिवस पर एक प्रस्तुति रखी। इसके बाद डॉ. अर.के. बोरा, समूह समन्वयक (अनु.) के द्वारा माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह का संदेश सबके समुख पाठ किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में माननीय निदेशक महोदय डॉ. अर.एस.सी. जयराज, ने हिन्दी भाषा के साथ-साथ प्रादेशिक भाषाओं के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को हिन्दी सप्ताह की बधाई देते हुए सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागिता पर जोर डाला। इसके बाद श्री मनीष कुमार सिंह ने दिनभर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में सभी को अवगत कराया व संस्थान के सभी लोगों को उसमें भाग लेने के लिए निवेदन किया। सभा के उपरांत एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। दिनांक 17 सितम्बर 2019 को अपराह्न 3.00 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सभी की भागीदारी सराहनीय रही। दिनांक 18 सितम्बर 2019 को संस्थान के कार्मिकों के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसका विषय था "राजभाषा के लिए आईटी टूल्स का प्रयोग" कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ श्री अजय कुमार, हिन्दी अधिकारी, नीस्ट, जोरहाट ने गूगल एप्प, गूगल ट्रांसलेटर, वॉइस टाईपिंग आदि विषयों पर जानकारी दी। कार्यशाला के अलावा संस्थान के बच्चों एवं कार्मिकों के परिवार के लोगों के लिए आशुभाषण प्रतियोगिता एवं कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गयी।

हिन्दी सप्ताह समारोह के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री विजय कुमार वर्मा एसोसिएट प्राध्यापक (सेवानिवृत्त), हिन्दी विभाग, जे बी कॉलेज, जोरहाट उपस्थित रहे। असमीया "फुलाम गामोछा" से मुख्य अतिथि के स्वागत के उपरांत हिन्दी काव्य पाठ

वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट ने मनाया हिन्दी सप्ताह समारोह 2019

कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आर. के. बोरा, ने हिन्दी भाषा पर आपने विचार सभी के समुख रखे। अपने सम्बोधन में मुख्य अतिथि ने हिन्दी भाषा के व्यापकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिन्दी अब केवल भारत में ही नहीं अपितु कई देशों का पठन-पाठन की भाषा है। अपने अनुभव बाटते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी के उपयोग में वन विभाग सदैव तत्पर है। अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया व डॉ. मनीष कुमार सिंह, वैज्ञानिक-डी एवं हिन्दी अधिकारी, द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा के समापन की घोषणा की गई।

(हिन्दी प्रकोष्ठ)

हिन्दी सप्ताह समारोह, 2019 के कुछ दृश्य



वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट ने मनाया हिन्दी सप्ताह समारोह 2019

